



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 1982/माघ 28, 1903

No. 56] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय
(मुख्य लेखा कार्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1982

का.आ. 82 (अ).—जबकि अधिसूचना संख्या सी-14013/1/81-मु.सं.का. 35 दिनांक 11 जनवरी, 1982 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में 15 जनवरी, 1982 के तथा दूरदर्शन क्रोनीकल समाचारपत्र में 17 जनवरी, 1982 को प्रकाशित की गई जिसमें शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखापाल, मोहम्मद फहीमुद्दीन को यह सूचित किया गया था कि 25 फरवरी, 1981 में बर्खास्त की गई छटिया जिसमें कि उन्होंने समय-समय पर आवेदन किया है, अस्वीकृत कर दी गई है तथा उनकी अनुपस्थिति की अवधि को अवैध तथा ग्राह्य कर किया हुआ मंजूर जा रहा है,

और जबकि उक्त फहीमुद्दीन से उपरोक्त अधिसूचना का 15 दिन के अन्दर-अन्दर उत्तर देने के लिए कहा गया था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है,

और जबकि अधीक्षक जो उक्त फहीमुद्दीन के भवन में अनुशासनिक-प्राधिकारी है इस बात में सन्तुष्ट है कि केन्द्रीय सिविन सेवा

(वर्गीकरण, नियंत्रण और अभील) नियमावली 1965 (इसके बाद इसको के.मि.से. कहा गया है) में दी गई विधि में प्राप्त करना उन कारणों से न्याय नहीं है कि न तो फहीमुद्दीन अपने आवेदन-पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1981 में दिए गए पत्र पर उपलब्ध है न ही उनका वर्तमान पता ठिकाना मिलता है और न ही उन्होंने उपरोक्त अधिसूचना का ही उत्तर दिया है;

और जब कि अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात से भी संतुष्ट है कि उक्त फहीमुद्दीन सूची से अनुपस्थित रह कर जो अवैध है तथा जान बूझकर की गई अनुपस्थिति है केन्द्रीय सिविन सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) (ii) तथा 3(1) (iii) का उल्लंघन करने के दोषी है;

अब इसलिए केन्द्रीय सिविन सेवा नियमावली के नियम 19 (ii) के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है तथा उक्त फहीमुद्दीन को एतद्वारा के.मि.से. के नियम 11(viii) के अनुसार सेवा से हटाया जाता है तथा सेवा से हटाए जाने के दंड सरकार के अन्तर्गत भविष्य में रोजगार के लिए आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश 3 फरवरी, 1982 के पूर्वाह्न में लागू होगा।

[सं० सी-14013/1/81-प्र.लेखा कार्या./(12)-पु.स.]

विश्वनाथ कैला, लेखा नियंत्रक
(अनुशासनिक प्राधिकारी)

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Principal Accounts Office, New Delhi

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 1982

S.O. 82(E).—Whereas notification No. C-14013/1/81-Pr. A.O./35 dated 11-1-1982 was published in Part II-Section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India (Extraordinary) dated 15th January, 1982 and in the Deccan Chronicle newspaper dated 17th January, 1982 whereby Mr. Mohd. Fahimuddin, employed as Junior Accountant in Ministry of Education and Culture was informed that extension of leave commencing from 25-2-1981 as applied by him from time to time has been refused and that the period of absence is being treated as unauthorised and wilful;

And whereas said Mr. Fahimuddin was asked to respond to the notification mentioned in the first recital within fifteen days but he has not done so;

And whereas the undersigned who is the Disciplinary Authority in respect of said Mr. Fahimuddin is satisfied that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the

manner provided in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 (hereinafter referred to as the CCA Rules) due to reasons that neither said Mr. Fahimuddin is available on the address mentioned in his application dated 22-1-1981 nor his present whereabouts are traceable nor has he responded to the notification mentioned in the first recital;

And whereas the Disciplinary Authority is also satisfied that said Mr. Fahimuddin is guilty of violation of Rule 3(1) (ii) and 3(1) (iii) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 for absentsing himself from duty which was unauthorised and wilful;

Now therefore provisions of Rule 19(ii) of the CCA Rules are invoked and said Mr. Fahimuddin is hereby removed from service in accordance with Rule 11(viii) of the CCA Rules and the penalty of removal from service shall not be a disqualification for future employment under the Government. This order shall take effect from the forenoon of 3rd February, 1982.

[C-14013/1/81-Pr. A.O./(12)-Conf.]

V. N. KAILA, Controller of Accounts
(Disciplinary Authority)